

8	लिए गए अग्रिम की रकम, यदि कोई हो तो.....रु. Amount of advance, if any, drawn Rs.					
9	उस यात्रा/उन यात्राओं का विवरण जिसके लिए सरकारी कर्मचारी ने उस श्रेणी से, जिसका हकदार है, उच्चतर श्रेणी का उपभोग किया गया है। (स्वीकृति की संख्या और तारीख का उल्लेख करें।) Particulars of Journey (s) for which higher class of accommodation that the one to which Government servant is entitled was used. (Sanction No. & Date to be given.)					
स्थान /Place		वाहन का प्रकार Mode of conveyance	श्रेणी जिसका वह पात्र है Class to which entitled	की गई यात्रा की श्रेणी / Class by which actually travelled	यात्रियों की संख्या No of Fares	भुगतान किया गया किराया Fare paid
से From	तक To				रु. Rs. P.
10	रेल से जुड़े स्थानों के बीच, सड़क मार्ग से की गई यात्रा/यात्राओं का ब्यौरा। Particulars of journey (s) performed by road between places connected by rail					
स्थानों के नाम Name of Places			श्रेणी जिसका वह पात्र है Class to which entitled	रेल किराया Rail Fare		

प्रमाणित किया जाता है कि

Certified that the:-

- ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है, और
Information, as given above is true to the best of my knowledge and belief, and
- मेरा पति/पत्नी सरकारी सेवा में नहीं है/ सरकारी सेवा में है और उनके द्वारा सम्बन्धित खण्ड वर्ष..... के अन्तर्गत अलग से स्वयं या परिवार के किसी भी सदस्य के लिए इस सुविधा का लाभ नहीं उठाया गया है।
That my husband/wife is not employed in Government service/that my husband /wife is employed in government service and the concession has not been availed of by him/her separately or himself/herself or for any of the family members of the concerned block of years.

दिनांक /Date

सरकारी कर्मचारी के हस्ताक्षर
Signature of Government Servant

भाग - ख (बिल अनुभाग द्वारा भरा जाना है)
Part- B (to be filled in the Bill Section)

- 1- रियायती यात्रा अवकाश शुद्ध हकदारीरु. बनती है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।
The net entitlement on account of leave travel concession works out to Rs. as detailed below :-

(क) रेल/वायुयान/बस/स्टीमर का यात्रा किराया रु.

(A) Railway/Air/Bus Steamer fare Rs.

(B) वाउचर संख्या दिनांकके माध्यम से अग्रिम की आहरित राशि.....

(यदि है तो), कम करें।

Less amount of advace drawn vide

Voucher No.dated..... रु./Rs.

कुल राशि Net Amount

रु./Rs.

2- व्यय की गई राशि रू. में विकलनीय है
The expenditure is debitable to

बिल लिपिक के आद्याक्षर
Initial of Bill Clerk

आहरण और संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Drawing & Disbursing Officer

प्रतिहस्ताक्षरित / Countersigned

नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Controlling Officer

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी की सेवा पंजी में आवश्यक प्रविष्टियां दर्ज कर दी गई हैं।

Certified that necessary entries have been made in the Service Book of Shri/Shrimati/Miss.....
.....

सेवा पुस्तिका में प्रविष्टियों को अनुप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of the officer authorized to attest entries in the Service Book.

रू..... (रू.) पारित।
Passed for Rs..... Rupees
.....

नियंत्रण अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of Controlling Officer

लेखा शाखा/ वेतन एवं लेखा कार्यालय के प्रयोग हेतु।
FOR USE IN ACCOUNTS BRANCH / PAY AND ACCOUNTS OFFICER

वाउचर सं..... दिनांक
VOUCHER NO. DATED

दिनांक के चेक सं. के माध्यम से रू.....
(रू.) का भुगतान।

Pay for Rs. Rupees.....
Vide Cheque No. dated.....

आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षर
Signature of the Drawing and Disbursing officer